



भारतीय विद्यालय डारसेट

हिंदी कार्यपत्रिका -12

तुम कब जाओगे अतिथि- प्रश्नोत्तर

तैयार किया गया : श्रीमती बीना स्टिफन

दिनांक : _____ छात्र /छात्रा का नाम : _____

कक्षा : IX “ब”

1.	लेखक अतिथि को कैसी विदाइ देना चाहता था ?	
उ.	लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था । वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाया जाए । उसे बार-बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह न रुके ।	
2.	संबंधो का संक्रमण के दौर से गुजरना’ इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं ? विस्तार से लिखिए।	
उ.	‘संबंधो का संक्रमण के दौर से गुजरना’ का आशय है – संबंधो का बदलना । पहले जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे सौहार्दपूर्ण थे, उनका अब घृणा, तिरस्कार और बोरियत , में बदलना । जब अतिथि आया थातो लेखक ने उसे प्रसन्नता के साथ निभाया । उसके लिए शानदार डिनर बनवाया । अगले दिन भी उसे अच्छा लंच कराया तथा सिनेमा दिखाया । परंतु इसके बाद भी जब वह टिका रहा तो लेखक के मन में उसके प्रति तिरस्कार जागने लगा । इस प्रकार संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगे ।	
3.	कौनसा आघात-(shock) अप्रत्याशित(unexpected) था और उसका लेखक पर क्या असर पड़ा ? ‘तुम कब जाओगे अतिथि’ पाठ के आधार पर लिखिए ।	
उ.	लेखक के घर मेहमान को आए हुए दो दिन बीत चुके थे । वह उसके जाने की प्रतीक्षा में था । किंतु लेखक को मेहमान ने कहा कि वह अपने मैले कपड़े धोबी को देना चाहता है । यह सुनते ही लेखक को गहरा धक्का लगा । वह समझ गया कि यह अतिथि जल्दी से जानेवाला नहीं है । अतिथि का रहना यूँ रबड़ की तरह खिंच जाएगा इसका आभास होते ही लेखक को बहुत दुख हुआ ।	

4.	जब अतिथि चार दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या-क्या परिवर्तन आए ?	
3.	अतिथि चार दिन तक लेखक के घर टिका रहा । उसने जाने का नाम तक नहीं लिया । इससे लेखक के व्यवहार में निम्न परिवर्तन आए - (i) खाने स्तर डिनर से गिरकर खचड़ी तक आ पहुँचा । (ii) वह गेट आउट कहने को भी तैयार होने लगता है । (iii) लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगने लगता है । (iv) बातचीत तक बंद हो जाती है ।	